



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 132) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-1075/07 का0 13624)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

30 दिसम्बर 2008

श्री अजय कुमार द्विवेदी, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 519/04, तत्कालीन विशेष पदाधिकारी, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारी सदर रांची सम्प्रति उप सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को रांची शहर के अशोक नगर इलाका में 1.98 एकड़ जमीन का मुआवजा की दर बाजार दर से काफी कम निर्धारित किये जाने एवं डेवलपर्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाईटी को नाजायज लाभ पहुँचाने के आरोप में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री द्विवेदी को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री द्विवेदी का मुख्यालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. श्री द्विवेदी को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. श्री द्विवेदी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय है, संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 132-571+10-डी0टी0पी0।